

ब्रह्माकुमारीज़ सेवा केंद्र ने श्रद्धा व विश्वास से मनाया ईद मिलान समारोह

आज फरीदाबाद में बी पी 50 नीलम बाटा रोड पर विश्व विख्यात ब्रह्माकुमारियों ने बनाया ईद-उल-फितर का पर्व श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मनाया गया समारोह। इस अवसर पर इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने बढ़ चढ़ समारोह में हिस्सा लिया और सभी मुस्लिम भाइयों ने सभी ब्रह्माकुमारियों का धन्यवाद किया व सभी ने एक-दूसरे को ईद पर्व की बधाई दी।

ईद का त्योहार हमें भाईचारे का संदेश देता है, जिससे मिल-जुलकर रहने की प्रेरणा मिलती है। ईद के इस त्योहार पर मुस्लिम समुदाय व ब्रह्माकुमारियों ने लोगों द्वारा विश्व में अमन चैन की दुआ मांगी गई और सभी बहनो ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारक बात दी।

इस अवसर पर ओल्ड फरीदाबाद मस्जिद के मुफ्ती मुस्तजाबुद्दीन, ऊँचा गांव मस्जिद के मौलाना जमालुद्दीन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे. मुफ्ती मुस्तजाबुद्दीन के कहा कि ईद हमें आपसी भाईचारे को बढ़ाने की प्रेरणा देता है. हम सभी एक अल्लाह की संतान हैं और हमें आपस में प्यार और आपसी तालमेल बनाकर शांति से व्यवहार करना चाहिए.उन्होंने कहा कि ईद जैसा पर्व ब्रह्माकुमारीज़ केंद्र पर बनाना यह अपने आप में यह साबित करता है कि हम सभी एक हैं.

मौलाना जमालुद्दीन ने कहा कि आज ब्रह्माकुमारीज़ सेंटर पर आकर लगा कि हम चाहे कोई भी धर्म के हों लेकिन रूह के रूप में हम सभी एक अल्लाह की संतान हैं. यहाँ आकर ऐसा लगा कि सचमुच विश्व एक परिवार है. ब्रह्माकुमारी हुसैन ने कहा कि जब तक हम अपना परिवर्तन नहीं करेंगे तो समाज का और विश्व का परिवर्तन होना मुश्किल है.हमें अपने विचारों को बदलना होगा और उन्हें सकारात्मक बनाना होगा.सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्माकुमारी उषा ने सभी मेहमानों का धन्यवाद किया.

इस अवसर पर शेर मोहम्मद खान, प्रधान जमा मस्जिद ऊँचा गांव, बाबू खान सिद्दीकी, मुजेसर मस्जिद इमाम कारी हारून, मौलाना ज़ाकिर हुसैन, मौलाना हामिद, मोहम्मद नदवी, कयूब खान – जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष बी. जे. पी., सुहैल अहमद, खुर्शीद अहमद, वसीम जावेद, शाहबाज़, शफीक अहमद, वकील अहमद, ब्रह्माकुमारी पूनम, ब्रह्माकुमारी प्रिया व अन्य मौजूद थे.

<http://www.pioneerhindi.com/brama-kumari-seva-kendra-celebrates-eid-milan-celebrations-with-reverence-and-faith/>